



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 277]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 29, 1979/भाद्र 7, 1901

No. 277]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 29, 1979/BHADRA 7, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## वाणिज्य और नागरिक पूति मंत्रालय

(नागरिक पूति मंत्रालय)

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1979

आदेश

सा० का० नि० 520(अ).—वनस्पति, तेल उत्पादक निर्यतन आदेश, 1947 के खण्ड 4 के उपखण्ड (1) तथा खण्ड 4ख के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य, नागरिक पूति और सहकारिता मंत्रालय (नागरिक पूति और सहकारिता विभाग) के आदेश संख्या सा० का० नि० 576(अ) तारीख 12 दिसम्बर, 1978 को अधिकांश करते हुए और वनस्पति तेल उत्पादन (क्वालिटी के मानक) आदेश, 1975 की प्रथम अनुसूची के पैरा 2 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) में विनिर्दिष्ट परिष्कृत वनस्पति तेलों के उपयोग की सीमाओं को उपान्तरित करते हुए, भारत का वनस्पति तेल उत्पाद निर्यतन, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट सीमाओं को उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में वनस्पति तेल उत्पाद (जो किसी ऐसे अखाद्य औद्योगिक प्रयोग के लिए विनिर्मित उत्पादों या सार्जन से भिन्न हैं) के विनिर्माण में उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट वनस्पति तेल के उपयोग की सीमाओं के रूप में विहित करते हैं।

## सारणी

वनस्पति तेल का नाम	क्षेत्र	वनस्पति तेल उत्पाद के उपयोग की सीमा (भारत का प्रतिशत)
1	2	3
1. भारत के राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सप्लाई किया गया आयातित वनस्पति तेल अथवा देशी बिनौले का तेल या कम उत्पादित (माइनर) तेल, अर्थात्, नाइजर सीड तेल, बेसी सोयाबीन का तेल, घाल की भूसी का तेल, मकई (मक्का) का तेल, तरबूज के बीज का तेल, देशी सूरजमुखी के बीज का तेल, महुए का तेल और करंडी का तेल	सभी क्षेत्र	9.
2. तरल तेल के रूप में परिष्कृत तिल का तेल	सभी क्षेत्र	5

2 यदि कोई विनिर्माता किसी वनस्पति तेल उत्पाद (जो किसी ऐसे अस्वाद्य औद्योगिक प्रयोग के लिए विनिर्मित उत्पाद से भिन्न है) के विनिर्माण के लिए सारणी के स्तंभ 1 में मद सं० 1 के सामने निविष्ट देशी बिनोले का तेल या कोई कम उत्पादित (माइनर) तेल, या दोनों, का प्रयोग करता है तो इस प्रकार प्रयुक्त बिनोले का तेल या माइनर तेल या दोनों और ऐसे विनिर्माण के लिए राज्य व्यापार निगम से किसी विनिर्माता द्वारा आयातित वनस्पति तेल मिलाकर, उक्त सारणी के स्तंभ 3 में निविष्ट ऐसे वनस्पति तेल उत्पाद के भार के प्रतिशत के अनुसार ऐसे विनिर्माण के लिए अपेक्षित मात्रा से अधिक नहीं होगा।

3. यह आदेश तारीख 1 सितम्बर, 1979 से प्रवृत्त होगा और 31 अक्टूबर, 1979 तक जिसमें उक्त तारीख सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

[सं० 9-बीपी (2)/78]

आई० एम० सहाय, वनस्पति तेल नियंत्रक

## MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 29th August, 1979

### ORDER

**G. S.R. 520 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 4 and sub-clause (1) of clause 4B of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Department of Civil Supplies and Cooperation) No. G. S. R. 576 (E) dated the 12th December, 1978, and in modification of the limits of usage of refined vegetable oils specified in sub-clause (a) of clause (2) of paragraph 2 of the First Schedule to the Vegetable Oil Products (Standard of Quality) Order, 1975, the Vegetable Oil Products Controller of India hereby prescribes the limits specified in column (3) of the Table below as the limits of usage of the vegetable oil specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table in the manufacture of any vegetable oil product (other than any such product manufactured for non-edible industrial use or margarine) in the regions specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

Name of vegetable oil	Region	Limit of usage (per cent by weight) of vegetable oil product
1	2	3
1. Imported vegetable oils supplied through the State Trading Corporation of India or indigenous cottonseed oil or minor oils, that is, nigroseed oil indigenous soyabean oil, ricebran oil, maize (corn) oil, water-melon seed oil, indigenous sunflower seed oil, mahua oil and safflower seed oil.	All regions	95
2. Refined sesame oil as liquid oil.	All regions	5

2. Where any manufacturer uses indigenous cottonseed oil or any minor oil, or both, referred to in column 1 of the Table, against item, 1, for the manufacture of any vegetable oil product (other than any such product manufactured for non-edible industrial use), the cottonseed oil or minor oil, or both, so used together with imported vegetable oil drawn by such manufacturer from the State Trading Corporation for such manufacture shall not exceed the quantity required for such manufacture in accordance with the percentage by weight of such vegetable oil product referred to in column 3 of that Table.

3. This Order shall come into force on the 1st September, 1979 and shall remain in force for the period upto and inclusive of the 31st October, 1979.

[No. 9-VP(2)/78]

I. M. SAHAI.

Vegetable Oil Products Controller for India.